

April month portion and Notes

Portion: अपने बारे में

मुझे पसंद है

अपनी सुरक्षा

गाइड और नाचिर

हमारे सहायक

हमारे आस-पास

हमारा धारा तिरंगा

विदुआ पर पोस्टर चलाइए

स्वर : मॉखित - अ - अ:

लिखित : अ - अ: और उनके शब्द

Book Pg no: 1 to 32

व्याकरण भारती

Book Pg no: (5-9)

अपनी वार में (गाइस और सीखिए)

ताली बजाओ हाथों से।

ताली बजाओ हाथों से।

नाचा - कदो पैरों से।

नाचा - कदो पैरों से।

सुनो - सुनो कानों से।

देखो - देखो आँखों से।

सिर हिलाना तुम हों मैं, जी,

अगर तुम्हें भाया ये जाना, जी।

शरीर के अंगों का मिलान कीजिए।

I शब्दार्थ (Hand words)

नाक - Nose

दाँत - Teeth

कान - Ear

जीभ - Tongue

चेहरा - Face

पैर - Leg

उँगली - Fingers

मुझे पसंद है (My Favourite)

अपने ^{मनपसंद} भोजन का चित्र बनाइए।

अपने मनपसंद खिलौने का चित्र बनाइए।

अपनी मनपसंद वस्तु का चित्र बनाइए।

अपने मनपसंद फल का चित्र बनाइए।

अपने मनपसंद फूल का चित्र बनाइए।

अपने मनपसंद पक्षी का चित्र बनाइए।

Book back exercise Pg no: 2

अपनी सुरक्षा (My safety)

Book back exercise Pg no: 3

गाइड और नाचिस (Gang and Nache)

सुनी गनी, सुनी अमेर,

बाहर से आर हो अगर

हाथों को धोना रगड़ - रगड़।

खाने से पहले और खाने के बाद

हाथों को धोना रखना साफ।

शब्दार्थ (Hand words)

सुनी - Listen

धोना - Wash

बाद - After

बाहर - Outside

पहले - First

Book back exercise: Pg No: (4-7)

विंदुओं पर पेंसिल चलाइए
(Use a pencil to trace the lines)

Book exercise: Pg no: (8-12)

हमारे राष्ट्रीय त्योहार (Our National Festivals)

चित्र अध्ययन (picture study)

Book Pg no: 13

आओ कुछ करें (Let's do something)

Book Pg no: 14

कितने हैं? (How many?)

Book Pg no: 15

classmate
Date _____
Page _____

1. वर्ण ज्ञान - स्वर

I शब्दार्थ (Hard words)

अ - अनार - Pomegranate

आ - आम - Mango

इ - इमली - Tamarind

ई - ईख - Sugarcane

उ - उल्लू - Owl

ऊ - ऊन - Wool

ऋ - ऋषि - Sage

रा - रीड़ी - Heel

री - रीनक - Spectacles

औ - औखली - Mortar

औ - औजार - Tool

अं - अंगूर - Grapes

अः - प्रातः - Morning

Book Exercise Pg no: (16-32)

व्याकरण - भारती

1. वर्ण और वर्णमाला

2. स्वर

Book back exercise: (5-9)